



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 28.03.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना निघासन पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते, दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विजय ढुल के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना निघासन पुलिस द्वारा आज दिनांक 27/28.03.2021 को रात्रि समय लगभग 01:50 बजे गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर शारदा नहर की पटरी के ढाल पर जंगल के पेड़ों के नीचे 02 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते हुए पकड़ा गया। जिनके कब्जे से कई निर्मित, अर्द्ध निर्मित शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अभियोग दर्ज कर विधिक कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम के उत्साहवर्द्धन हेतु 10,000/- रू० का नकद पुरस्कार दिया गया।

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण -**

मु०अ०सं० 160/21 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -**

1. नोखे पुत्र मंगली निवासी ग्राम मूड़ी थाना ईसानगर जनपद खीरी
2. बदलू पुत्र बेचेलाल उर्फ बेचई निवासी ग्राम सरजू नगर थाना धौरहरा जनपद खीरी

### **बरामद शस्त्र फैक्ट्री का विवरण-**

1. 03 अदद तमंचा 315 बोर (निर्मित)
2. 05 अदद तमंचा 12 बोर (निर्मित)
3. 02 अदद तमंचा/पोनिया (अर्द्धनिर्मित)
4. 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
5. 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
6. अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण

### **आपराधिक इतिहास-**

उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में आर्म्स एक्ट एवं चोरी इत्यादि के अभियोग पंजीकृत हैं।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1. नि० दिलेश सिंह (प्रभारी थाना निघासन)
2. उ०नि० लाल बहादुर मिश्र
3. उ०नि० करूणेश चन्द्र शुक्ल
4. हे०का० अभिषेक मिश्रा
5. हे०का० मो० अली
6. हे०का० वशीम हाशिमि
7. का० सुमित कुमार

**आत्महत्या हेतु नहर में कूदी महिला की अपनी सक्रियता, संवेदनशीलता व साहसपूर्ण कार्य से स्वयं नहर में कूदकर जान बचाने वाले पुलिसकर्मियों को उत्साहवर्धन हेतु नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया**



दिनांक 25.03.21 समय लगभग 13:45 पर थाना निघासन क्षेत्रान्तर्गत ढखेरवा चौराहा के पास एक महिला नीलम उम्र लगभग 35 वर्ष पत्नी सुकई निवासी खरवहिया नंबर-2 थाना निघासन खीरी घरेलू कलह से परेशान होकर आत्महत्या के इरादे से ढखेरवा नहर में कूद गई थी।

तभी ढखेरवा चौराहा पर ड्यूटी पर तैनात मुख्य आरक्षी मोहम्मद अली व आरक्षी धर्मेन्द्र द्वारा अपनी जान की परवाह न करते हुए त्वरित कार्यवाही कर अदम्य साहस का परिचय देते हुए नहर में कूदकर उपरोक्त महिला को सकुशल नहर से बाहर निकालकर उपचार कराया गया एवं स्वस्थ होने पर परिवारीजन के सुपुर्द किया गया। खीरी पुलिस की सक्रियता, संवेदनशीलता एवं इस साहसपूर्ण कार्य की स्थानीय जनता द्वारा मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की जा रही है।

आज दिनांक 28.03.2021 को पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय दुल द्वारा पुलिस लाइन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपरोक्त दोनों पुलिसकर्मियों के कार्य की सराहना करते हुए उत्साहवर्धन हेतु 2500-2500 रूपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया तथा अन्य सभी को भी इनसे प्रेरणा लेकर नागरिक सुरक्षा के अपने कर्तव्य को विपरीत परिस्थियों में भी निर्वहन करते हेतु प्रोत्साहित किया गया।

**अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, 315 लीटर अवैध कच्ची शराब, 08 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध वृहद स्तर पर सघन अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के दौरान विगत 24 घण्टे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 22 अभियोग पंजीकृत किये गये। 08 अवैध शराब भट्टी सहित 315 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गयी। साथ ही मौके पर भारी मात्रा में लहन भी नष्ट किया गया।